

उमा भारती कोरोना पॉजिटिव

By : Editor Published On : 27 Sep, 2020 06:00 AM IST



नई दिल्ली, पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता उमा भारती कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में उमा भारती ने लिखा है कि उन्होंने प्रशासन की टीम को खबर देकर बुलवाया और अपना कोरोना टेस्ट कराया। उमा भारती ने ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच एक स्थान पर खुद को क्वारनटीन कर लिया है। उमा भारती ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है।

उमा भारती ने ट्वीट में लिखा है, मैं आपकी जानकारी में यह डाल रही हूँ कि मैंने आज अपनी पहाड़ की यात्रा के समाप्ति के अंतिम दिन प्रशासन को आग्रह करके कोरोना टेस्ट के टीम को बुलवाया क्योंकि मुझे 3 दिन से हल्का बुखार था।

उमा भारती ने एक साथ कई ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना दी है। उमा भारती ने ट्वीट में लिखा है, मैंने हिमालय में कोविड के सभी विधিনিषेध एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। फिर भी मैं अभी कोरोना पॉजिटिव निकली हूँ। मैं अभी हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच वंदे मातरम् कुंज में क्वारनटीन हूँ जो कि मेरे परिवार के जैसा है। 4 दिन के बाद फिर से टेस्ट कराउंगी और स्थिति ऐसी ही रही तो डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार निर्णय लूंगी।

उमा भारती ने ट्वीट में अपील की है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हुए भाई-बहन पढ़े या उन्हें जानकारी हो, उन सबसे मेरी अपील है कि वो अपनी कोरोना टेस्ट करवाएं और सावधानी बरतें। PLC.

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/उमा-भारती-कोरोना-पॉजिटिव/>

www.internationalnewsandviews.com